

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 202]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 मई 2014—वैशाख 29, शक 1936

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मई 2014

क्र. एफ. 15-17-2010-दस-2.—चूंकि, मध्यप्रदेश शासन यह मानता है कि नीचे उल्लेखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र बाघों, अन्य सह-मांसभक्षियों एवं उनके भोज्य वन्यजीवों के एवं उनके प्राकृतावास व पर्यावरण के संरक्षण के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पारिस्थितिक, वन्यजीव एवं वानस्पतिक महत्व का है;

अतः वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 V(1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा, नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को “बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व” के रूप में अधिसूचित करता है एवं इसके एकीकृत प्रबंधन एवं प्रशासनिक नियंत्रण के प्रयोजन के लिए इसे क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया के अधीन करता है:—

अनुसूची

क. गठन

टाइगर रिजर्व का नाम—

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व

जिलों के नाम—

उमरिया, शहडोल एवं कटनी

कोर क्षेत्र या क्रांतिक बाघ प्राकृतावास (क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट)

बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एवं पनपथा अभ्यारण्य.

[मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक एफ-15-31-2007-दस-2, दिनांक 24 दिसम्बर, 2007 द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के स्पष्टीकरण (i) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, 71,690.390 हेक्टेयर क्षेत्र को कोर क्षेत्र या क्रांतिक बाघ प्राकृतावास (क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट) के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसे बाघ संरक्षण के उद्देश्य से, अनुसूचित जनजातियों या ऐसे अन्य वन निवासियों के अधिकारों पर प्रभाव डाले बिना, अक्षत रखा जाना है.]

बफर क्षेत्र—

कोर क्षेत्र या क्रांतिक बाघ प्राकृतावास (क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट) से लगे उमरिया, शहडोल एवं कटनी जिलों के आरक्षित वन, संरक्षित वन एवं अन्य क्षेत्र.

[मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक एफ-15-17-2010-दस-2, दिनांक 27 अक्टूबर, 2010 द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के स्पष्टीकरण (ii) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, 82,003.509 हेक्टेयर क्षेत्र को बफर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है, जहां बाघ एवं अन्य प्रजातियों के पर्याप्त प्रसार (डिस्पर्सल) के साथ क्रांतिक बाघ प्राकृतावास (क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट) की अखंडता सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षाकृत कम स्तर के प्राकृतावास संरक्षण की आवश्यकता है एवं जिसका उद्देश्य स्थानीय व्यक्तियों के जीविकोपार्जन, विकास सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की सम्यक् मान्यता के साथ, वन्यजीव एवं मानव क्रियाकलाप के सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना है.]

क्षेत्रफल

1,53,693.899 हेक्टेयर

ख. प्रशासनिक इकाइयां एवं सीमाएं

1. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र को निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया जाता है:—

| वन मंडल का नाम (मुख्यालय) | उप वन मंडल का नाम (मुख्यालय) | परिक्षेत्र का नाम (मुख्यालय) | कोर/ बफर | वन क्षेत्र (हेक्टेयर) | अन्य क्षेत्र (हेक्टेयर) | योग (हेक्टेयर) | उप वन मंडल की सीमाओं का विवरण | वन मंडल की सीमाओं का विवरण |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व (उमरिया) | धमोखर (उमरिया) | मगधी (धमोखर) | कोर | 10155.440 | 621.140 | 10776.580 | उत्तर उमरारा नदी बफर परिक्षेत्र धमोखर के कक्ष क्र. पी 74 की उत्तरी सीमा से कोर परिक्षेत्र खितौली के कक्ष क्र. 7 की पश्चिमी सीमा तक. कोर परिक्षेत्र खितौली की पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमाएं, कोर परिक्षेत्र ताला की पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमाएँ. | उत्तर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमा. |
| | | धमोखर (धमोखर) | बफर | 20237.969 | 6435.383 | 26673.352 | पूर्व कोर परिक्षेत्र मगधी के कक्ष क्र. 281 की उत्तरी सीमा, कोर परिक्षेत्र कल्लवाह की पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमाएं जोहिला नदी तक, जोहिला नदी बफर परिक्षेत्र मानपुर के कक्ष क्र. 312 की पश्चिमी सीमा तक. | पूर्व बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमा. |
| | | | | | | | दक्षिण जोहिला नदी एवं बफर परिक्षेत्र धमोखर की दक्षिणी सीमा कक्ष क्र. 94 तक. | दक्षिण उमरिया (सामान्य) वन मंडल की सीमा. |
| | | | | | | | पश्चिम बफर परिक्षेत्र धमोखर की पश्चिमी सीमा कक्ष क्र. 94 से कक्ष क्र. पी. 74 उमरारा नदी तक. | पश्चिम उमरिया (सामान्य) वन मंडल की सीमा. |
| योग . . | उप वन मंडल धमोखर | | | 30393.409 | 7056.523 | 37449.932 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|----------------|------------------------|---------------------|-----|------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | ताला (ताला) | ताला (ताला) | कोर | 10642.870 | 331.130 | 10974.000 | उत्तर कोर परिक्षेत्र पतौर की दक्षिणी सीमा कक्ष क्र. पी183 ए से कक्ष क्र. पी 188 तक, बफर परिक्षेत्र मानपुर की दक्षिणी सीमा कोर परिक्षेत्र ताला के कक्ष क्र.332 की उत्तरी सीमा तक. | |
| | | खितौली (खितौली) | कोर | 11303.840 | 490.230 | 11794.070 | पूर्व बफर परिक्षेत्र मानपुर की दक्षिणी सीमा कोर परिक्षेत्र ताला के कक्ष क्र. 298 की पूर्वी सीमा तक. दक्षिण कोर परिक्षेत्र मगधी की उत्तरी सीमा कक्ष क्र. 299 तक, कोर परिक्षेत्र ताला की पश्चिमी सीमा कक्ष क्र. 321 तक, कोर परिक्षेत्र खितौली की दक्षिणी एवं पश्चिमी सीमाएं उमरार नदी तक. | |
| योग . . | उप वन मंडल ताला | | | 21946.710 | 821.360 | 22768.070 | पश्चिम कोर परिक्षेत्र खितौली की पश्चिमी सीमा उमरार नदी से कोर परिक्षेत्र पतौर के कक्ष क्र. पी 183 ए की दक्षिणी सीमा तक. | |
| | मानपुर (मानपुर) | कल्लवाह (करकेली) | कोर | 11408.330 | 313.710 | 11722.040 | उत्तर बफर परिक्षेत्र मानपुर की उत्तरी सीमा कक्ष क्र. पी653 से कक्ष क्र. पी 378 सोन नदी तक. पूर्व सोन नदी एवं बफर परिक्षेत्र मानपुर की पूर्वी सीमा कक्ष क्र. 312 जोहिला नदी तक. | |
| | मानपुर (मानपुर) | | बफर | 27566.627 | 6426.046 | 33992.673 | दक्षिण जोहिला नदी कक्ष क्र. 312 से कोर परिक्षेत्र कल्लवाह के कक्ष क्र. 256 की दक्षिणी सीमा तक, कोर परिक्षेत्र कल्लवाह की दक्षिणी एवं पश्चिमी सीमाएं कोर परिक्षेत्र मगधी के कक्ष क्र. 281 की उत्तरी सीमा तक, कोर परिक्षेत्र ताला की पूर्वी एवं उत्तरी सीमाएं, कोर परिक्षेत्र खितौली की उत्तरी सीमा कोर परिक्षेत्र पतौर के कक्ष क्र. पी 188 तक. | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|-----|------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | | | | | | | पश्चिमी | |
| | | | | | | | कोर परिक्षेत्र पतौर की दक्षिणी सीमा, कोर परिक्षेत्र पनपथा की दक्षिणी सीमा बफर परिक्षेत्र मानपुर के कक्ष क्र. पी 653 तक. | |
| | योग . . उप वन मंडल मानपुर | | 38974.957 | 6739.756 | 45714.713 | | | |
| | पनपथा (बरही) | पतौर (पतौर) | कोर | 14122.100 | 1282.410 | 15404.510 | उत्तर | |
| | | | | | | | बफर परिक्षेत्र पनपथा की उत्तरी सीमा कक्ष क्र. 392 से पी633 की पूर्वी सीमा तक, कोर परिक्षेत्र पनपथा की उत्तरी सीमा बफर परिक्षेत्र पनपथा के कक्ष क्र. पी 636 की दक्षिणी सीमा तक, बफर परिक्षेत्र पनपथा की उत्तरी सीमा, कोर परिक्षेत्र पनपथा की उत्तरी सीमा सोन नदी तक, सोन नदी एवं उत्तर शहडोल (सामान्य) वन मंडल की सीमा बफर परिक्षेत्र पनपथा के कक्ष क्र. पी 174 तक. | |
| | | | कोर | 10462.100 | 557.090 | 11019.190 | | |
| | | | पनपथा (पनपथा) | | | | | |
| | | | बफर | 17066.086 | 4271.398 | 21337.484 | | |
| | | | पनपथा (पनपथा) | | | | | |
| | | | | | | | पूर्व | |
| | | | | | | | उत्तर शहडोल (सामान्य) वन मंडल की सीमा कक्ष क्र. 192 की दक्षिणी सीमा पर सोन नदी तक, सोन नदी एवं कोर परिक्षेत्र पनपथा की दक्षिणी सीमा, कोर परिक्षेत्र पतौर की दक्षिणी सीमा कोर परिक्षेत्र खितौली के कक्ष क्र. 381 की उत्तरी सीमा तक. | |
| | | | | | | | दक्षिण | |
| | | | | | | | कक्ष क्र. 381 की सीमा से कोर परिक्षेत्र खितौली की उत्तरी एवं पश्चिमी सीमाएं बफर परिक्षेत्र पनपथा के कक्ष क्र. 487 की दक्षिणी सीमा पर उमरार नदी तक. | |
| | | | | | | | पश्चिम | |
| | | | | | | | कटनी (सामान्य) वन मंडल की पूर्वी सीमा बफर परिक्षेत्र पनपथा के कक्ष क्र. 487 की पश्चिमी सीमा पर उमरार नदी से कक्ष क्र. 392 की पश्चिमी एवं उत्तरी सीमाओं के मिलान तक. | |
| | योग . . उप वन मंडल पनपथा | | 41650.286 | 6110.898 | 47761.184 | | | |
| | महायोग . . बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व | | 132965.362 | 20728.537 | 153693.899 | | | |

2. इस अधिसूचना के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए कुल 1,53,693.899 हेक्टेयर क्षेत्र का नाम “बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व” होगा, जो “क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया” के नियंत्रण में रहेगा. क्षेत्र संचालक की सहायता के लिए एक “उप संचालक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व” होंगे, जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के आहरण एवं संवितरण अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन भी करेंगे. प्रत्येक उप वन मंडल का प्रभार एक “सहायक संचालक” के पास होगा, जो उप संचालक के अधीन सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी होंगे.

ग. सम्मिलित क्षेत्र का विवरण

| क्रमांक | इकाई का नाम | आरक्षित वन (हेक्टेयर) | संरक्षित वन (हेक्टेयर) | अन्य क्षेत्र (हेक्टेयर) | योग (हेक्टेयर) |
|---------|-------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

1. कोर क्षेत्र या क्रांतिक बाघ प्राकृतावास (क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट)

| | | | | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान | 42,169.840 | 1,340.640 | 1,756.210 | 45,266.690 |
| 2 | पनपथा अभ्यारण्य | 20,566.100 | 4,018.100 | 1,839.500 | 26,423.700 |
| योग . . | कोर क्षेत्र या क्रांतिक बाघ प्राकृतावास (क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट) | 62,735.940 | 5,358.740 | 3,595.710 | 71,690.390 |

2. बफर क्षेत्र

| | | | | | |
|---------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1 | उमरिया (सामान्य) वन मंडल, उमरिया. | 17,103.711 | 36,000.461 | 16,886.579 | 69,990.751 |
| 2 | उत्तर शहडोल (सामान्य) वन मंडल, शहडोल | 4,256.200 | 1,858.780 | 41.188 | 6,156.168 |
| 3 | कटनी (सामान्य) वन मंडल, कटनी. | 5,651.530 | 0.000 | 205.060 | 5,856.590 |
| योग . . | बफर क्षेत्र | 27,011.441 | 37,859.241 | 17,132.827 | 82,003.509 |
| महायोग. | बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व | 89,747.381 | 43,217.981 | 20,728.537 | 1,53,693.899 |

No. F-15-01-2010-X-2.—WHEREAS, the Government of Madhya Pradesh considers that the area specified in the Schedule below is of adequate ecological, faunal and floral significance for the purpose of conservation of tigers, other co-predators and their prey base and their habitat and environment;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred under Section 38V(1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972, the Government of Madhya Pradesh, hereby notifies the area specified in the Schedule below as “Bandhavgarh Tiger Reserve” and places it, for the purpose of its unified management and administrative control, under the Field Director, Bandhavgarh Tiger Reserve, Umaria :—

SCHEDULE

a. Constitution

Name of the Tiger Reserve— Bandhavgarh Tiger Reserve

Name of the Districts— Umaria, Shahdol and Katni

Core Area or Critical Tiger Habitat

Bandhavgarh National Park and Panpatha Sanctuary.

[*Vide* M. P. Gazette Notification No. F-15-31-2007-X-2, dated 24th December 2007, in exercise of the powers conferred under Explanation (i) of Section 38V of the Wildlife (Protection) Act, 1972, an area of 71,690.390 hectares has been notified as the Core Area or Critical Tiger Habitat, which is to be kept inviolate for the purpose of tiger conservation, without affecting the rights of the Scheduled Tribes or such other Forest dwellers].

Buffer Area—

Reserved Forests, Protected Forests and other areas of Umaria, Shahdol and Katni Districts adjoining the Core Area or Critical Tiger Habitat.

[*Vide* M. P. Gazette Notification No. F-15-17-2010-X-2, dated 27th October 2010, in exercise of the powers conferred under Explanation (ii) of Section 38V of the Wildlife (Protection) Act, an area of 82,003.509 hectares has been notified as the Buffer Area, where a lesser degree of habitat protection is required to ensure the integrity of the Critical Tiger Habitat with adequate dispersal for tiger and other species, and which aims at promoting co-existence between wildlife and human activity with due recognition of the livelihood, developmental, Social and Cultural rights of the local people).

Total Area . .

1,53,693.899 hectares.

b. Administrative Units and Boundaries

1. The area of Bandhavgarh Tiger Reserve is divided into the following administrative units :—

| Name of Forest Division (Head-quarters) | Name of Forest sub-Division (Head-quarters) | Range (Head-quarters) | Core/ Buffer | Forest Area (hectares) | Other Area (hectares) | Total Area (hectares) | Boundaries of Forest Sub-Division | Boundaries of Forest Division |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Bandhavgarh Tiger Reserve (Umaria) | Dhamokhar (Umaria) | Magdhi (Dhamokhar) | Core | 10155.440 | 621.140 | 10776.580 | North Umar River from northern boundary of Comptt. No. p74 of Buffer Range Dhamokhar upto western boundary of Comptt. No. 7 of Core Range Khitauli, Westerns southern boundaries of Core Range Khitauli, Western & southern boundaries of Core Range Tala. | North Boundary of Buffer Area of Bandhavgarh Tiger Reserve. |
| | | Dhamokhar (Dhamokhar) | Buffer | 20237.969 | 6435.383 | 26673.352 | East Northern boundary of Comptt. No. 281 of Core Range Magdhi, Western & southern boundaries of Core Range Kailawah upto Johila River, Johila River upto western boundary of Comptt. No. 312 of Buffer Range Manpur. | East Boundary of Buffer Area of Bandhavgarh Tiger Reserve. |
| | | | | | | | South Johila River and southern boundary of Buffer Range Dhamokhar upto Comptt. No. 94. | South Boundary of Umaria (Territorial) Forest Division. |
| Total : Forest Sub-Division Dhamokhar | | | | 30393.409 | 7056.523 | 37449.932 | | |
| Tala (Tala) | Tala (Tala) | | Core | 10642.870 | 331.130 | 10974.000 | North Southern boundary of Core Range Pataur from Comptt. No. P183A upto Comptt. No. P188 Southern boundary of Buffer Range Manpur upto northern boundary of Comptt. No. 332 of Core Range Tala. | |
| | | Khitauli (Khitauli) | Core | 11303.840 | 490.230 | 11794.070 | East Southern boundary of Buffer Range Manpur upto eastern boundary of Comptt. No. 298 of Core Range Tala. | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|-------------------------------------------|-------------------|------|-----------|------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | | | | | | | South | |
| | | | | | | | Northern boundary of Core Range Magdhi upto Comptt. No. 299, Western boundary of Core Range Tala upto Comptt. No. 321, Southern & western boundaries of Core Range Khitauli upto Umrar River. | |
| | | | | | | | West | |
| | | | | | | | Western boundary of Core Range Khitauli from Umrar River to southern boundary of Comptt. No. P183A of Core Range Pataur. | |
| Total : Forest Sub-Division Tala | | | | 21946.710 | 821.360 | 22768.070 | | |
| Manpur (Manpur) | Kallwah (Karkeli) | Core | 11408.330 | 313.710 | 11722.040 | | North | |
| | | | | | | | Northern boundary of Buffer Range Manpur from Comptt. No. P653 to Comptt. No. P378 upto Son River. | |
| | | | | | | | East | |
| | | | | | | | Son River & eastern boundary of Buffer Range Manpur to Comptt. No. 312 upto Johila River. | |
| | | | | | | | South | |
| | | | | | | | Johila River from Comptt. No. 312 to Southern boundary of Comptt. No. 256 of Core Range Kallwah, Southern & western boundaries of Core Range Kallwah upto northern boundary of Comptt. No. 281 of Core Range Magdhi, Eastern & northern boundaries of Core Range Tala, Northern boundary of Core Range Khitauli upto Comptt. No. P188 of Core Range Pataur. | |
| | | | | | | | West | |
| | | | | | | | Southern boundary of Core Range Pataur, Southern boundary of Core Range Panpatha upto Comptt. No. P653 of Buffer Range Manpur. | |
| Total : Forest Sub-Division Manpur | | | | 38974.957 | 6739.756 | 45714.713 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | Panpatha (Barhi) | Pataur (Pataur) | Core | 14122.100 | 1282.410 | 15404.510 | North | |
| | | | | | | | Northern boundary of Buffer Range Panpatha from comptt. No. 392 upto eastern boundary of Comptt. No. P633, Northern boundary of Core Range Panpatha upto southern boundary of Comptt. P636 of Buffer Range Panpatha, Northern boundary of Buffer Range Panpatha, Northern boundary of Core Range panpatha upto Son River, Son River & boundary of North Shahdol (Territorial) Forest Division upto Comptt. No. P174 of Buffer Range Panpatha. | |
| | | Panpatha (Panpatha) | Core | 10462.100 | 557.090 | 11019.190 | East | |
| | | | | | | | Boundary of North Shahdol (Territorial) Forest Division upto Son River at southern boundary of Comptt. No. 192, Son River & southern boundary of Core Range Panpatha, Southern boundary of Core Range Pataur upto northern boundary of Comptt. No. 381 of Core Range Khitauli. | |
| | | Panpatha (Panpatha) | Buffer | 17066.086 | 4271.398 | 21337.484 | South | |
| | | | | | | | Boundary of Comptt. No. 381 to northern & western boundarias of Core Range Khaitauli upto Umrar River at southern boundary of Comptt. No. 487 of Buffer Range Panpatha. | |
| | | | | | | | West | |
| | | | | | | | Eastern boundary of Katni (Territorial) Forest Division from Umrar River at western boundary of Comptt. No. 487 of Buffer Range Panpatha upto intersection of western & northern boundaries of Comptt. No. 392 | |
| Total : Forest Sub-Division Panpatha | | | | 41650.286 | 6110.898 | 47761.184 | | |
| Grand Total . . . Bandhavgarh Tiger Reserve | | | | 132965.362 | 20728.537 | 153693.899 | | |

2. The total area of 1,53,693.899 hectares, notified under this notification, shall be named “Bhandhavgarh Tiger Reserve”, which shall be under the control of the “Field Director, Bandhavgarh Tiger Reserve Umaria”. To assist the Field Director, there shall be one “Deputy Director, Bhandhavgarh Tiger Reserve”, who shall also be the Drawing and Disbursing Officer for Bandhavgarh Tiger Reserve. The in-charge of each Forest Sub-Division shall be an “Assistant Director”, who shall be an Officer of the rank of Assistant Conservator of Forests under the Deputy Director.

c. Details of the Area Included

| S.No. (1) | Name of the Unit (2) | Reserved Forest (hectares) (3) | Protected Forest (hectares) (4) | Other Areas (hectares) (5) | Total (hectares) (6) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Core Area or Critical Tiger Habitat | | | | | |
| 1 | Bandhavgarh National Park | 42,169.840 | 1,340.640 | 1,756.210 | 45,266.690 |
| 2 | Panpatha Sanctuary | 20566.100 | 4,018.100 | 1,839.500 | 26,423.700 |
| Total . .Core Area or Critical Tiger Habitat | | 62,735.940 | 5,358.740 | 3,595.710 | 71,690.390 |
| 2. Buffer Area | | | | | |
| 1 | Umara (Territorial) Forest Division, Umara | 17,103.711 | 36,000.461 | 16,886.579 | 69,990.751 |
| 2 | North Shahdol (Territorial) Forest Division, Shahdol. | 4,256.200 | 1,858.780 | 41.188 | 6,156,168 |
| 3 | Katni (Territorial) Forest Division, Katni. | 5,651.530 | 0.000 | 205.060 | 5,856.590 |
| Total . .Buffer Area | | 27,011.441 | 37,859.241 | 17,132.827 | 82,003.509 |
| Grand Total Bandhavgarh Tiger Reserve | | 89,747.381 | 43,217.981 | 20,728.537 | 1,53,693.899 |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार, सचिव.